



**WEARIT**  
GROUP

**HIND SYNTEX LTD.**



Date: November 8, 2017

To  
The Secretary  
Corporate Relationship Department,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
New Trading Ring, Rotunda Building,  
P. J. Tower, Dalal Street, Fort, 27<sup>th</sup> Floor  
Mumbai - 400 001

The Manager  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)  
Mumbai - 400 051

**STOCK CODE : 503881**

**STOCK CODE : HINDSYNTEX**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Cutting of Newspaper (Notice of Board Meeting - Regulation 47)**

With reference to the above mentioned subject, please find enclosed herewith the copies of Cuttings of each of the following Newspaper in which Notice was published:

Free Press - Bhopal Edition (English) on November 07, 2017  
Swadesh - Bhopal Edition (Hindi) on November 05, 2017

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly,

For Hind Syntex Limited

  
(Nidhi Rath)  
Company Secretary &  
Compliance Officer



**Encl.: As above**

Corporate Office : 5E & F, Crescent Tower, 229, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020.

Ph : +91 33 4003 6164 / 6165. Fax : +91 33 4003 6158. Email : kolkata@wearitgroup.com

Indore Office : Sterling Tower, Office No. 214, 4th Floor, 2, M. G. Road, Indore-452 001. Madhya Pradesh

Ph : +91 731 4065347. Fax : +91 731 4064767. Email : indore@wearitgroup.com

Registered Office & Manufacturing Complex : Plot No. 2, 3, 4 & 5 Sector A, Industrial Growth Centre,  
Pillukhedi-465667, Dist : Rajgarh, Madhya Pradesh.

Ph : +91 7375 2444350; +91 93015 28698. Email : pillukhedi@wearitgroup.com

CIN : L17118MP1980PLC001697







BHOHAL GANG-RAPE


# Gaur takes a dig at Chouhan: 'I always met victims of heinous crimes'

**Ex-CM, Delhi minister meet victim, top politicians busy with by-polls**

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL

Former chief minister Bahubal Gaur visited the residence of Bhopal gang rape victim in Vidisha on Monday evening and talked to her and her mother. Without taking names, Gaur sniped at the chief minister Shivraj Singh Chouhan. "When I was the chief minister, I used to meet every victim of heinous crimes," he said.

Gaur said that as home minister he used to be harassing. He said that when the police made the victim and her father run from



Minister for labour, Delhi Government, Gopal Rai visits gang rape victim's residence on Monday

one police station to another for filing an FIR was a telling comment on the state's law and order situation. Rai said that the AAP will submit a memorandum to the National Commission for Women in Delhi and will demand, among other things, registration of criminal cases against officials who took victim's complaint lightly.

Earlier in the day, AAP state president Alok Agarwal and Delhi labour minister Gopal Rai also met the victim. Rai later said that the incident was condemnable but what happened after it was horrifying. He said that when the police made the victim and her father run from

## SP who guffawed at gang rape smells controversy in her removal

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL


Superintendent of police, railways Malaviya, who was given marching orders after the surfacing of a video showing her guffawing while saying how persistent media enquiries about the gang-rape had given her a headache, has been removed. The IPS official said that she had curbed certain irregularities. She was removed in the GRP and because of that, she had become a thorn in the flesh for her superiors and some other people of influence. And that, she claimed, was why she was shunted out. Malaviya has been posted as AIG in the FIHQ. She has been charged with taking the case causally. Malaviya said that the gang-rape victim was like her daughter.

The victim was so hurt by SP's behaviour that she had even sent a formal complaint registered against him.

## Chaudhary's removal miffs IPS fraternity

The IPS officials are sore with the government's decision to remove Yogesh Chaudhary, IG, Bhopal Zone, after the gang-rape incident. Chaudhary is a competent officer and he was not directly responsible for the shabby treatment which the victim received at the hands of local police. The arguments sources said that senior IPS officials have conveyed their displeasure over Chaudhary's removal to the DGP Pishi Shukla.

from one post to another. This is not for the first time that Malaviya has courted controversy. Some years back, she had clashed with the then SP Pavan Shrivastava and had even sent a formal complaint registered against him.



Students make human chain protest against gang rape in city on Monday

# Students hold candle march to protest gang rape

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL

Thousands of students including NSUI activists, members of NGO and social organisations took out the candle march on Monday to protest against the gang rape of 19-year old student, which occurred in MP Nagar area on October 31.

Their spokesperson Vivek Tripathi said thousands of people took out the candle march and reached crime spot and lighted the area. He said case should be registered against five police personnel. He also alleged that the IG Yogesh Chaudhary has been given the re-



Students demonstrate in protest against gang rape on Monday

sponsibility of law and order by transferring him from the post of IG, Bhopal. "The official who is not able to control or keep eye on the crimes of one district, how he will monitor the whole state," Tripathi demanded to know.

# Court may arrange lawyer for accused

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL

After District Bar Association decided not to fight case of accused in gang rape case, advocates said that court will provide the lawyer (amicus curiae). Even the advocates who fought the rape case filed against Maharishi Vidya Mandir chancellor Girish Verma stated that it is a heinous crime. Verma was acquitted in the case. However, most advocates said that it hardly matters whether the state pleads on behalf of

the accused because the accused stand very slim chance of getting bail.

Advocate Parvez Alam said, "If advocates have decided, the court will appoint any lawyer from legal aid panel. Even the advocates who fought the rape case filed against Maharishi Vidya Mandir chancellor Girish Verma was acquitted in the case. However, most advocates said that it hardly matters whether the state pleads on behalf of

any fee. One can file writ petition in High Court for change of district and in Supreme Court for change of state for trial."

Advocate Vijay Chaudhary said, "Court can appoint any lawyer from legal aid panel for accused. If advocates refuse to fight then in gang rape matter. Picture will be clear after filing the challan and once investigation begins."

can hire anyone from outside or accused can pray before the court for change of district. Secondly, advocates are already fighting many rape cases on behalf of accused. It is nothing new for lawyers."

Jagdish Chhawani said, "Court can appoint any lawyer from legal aid panel for accused. If advocates refuse to fight then in gang rape matter. Picture will be clear after filing the challan and once investigation begins."

# Minor boy killed after sexual assault in Vidisha

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL

A minor boy was sexually assaulted and murdered at Bishanpur village under Kurwai police station in Vidisha district recently. The accused had strangled the victim to death and smashed his face with a stone. Later on, sexual assault was confirmed. It is for the second time that the accused has committed such a crime. Accused is already on bail in connection with first sexual assault, which was reported in 2014.

Station house officer (SHO) Kurwai Shakuntala Bannia said, "24-year-old Jagdish was known to 13-year old boy and both belonged to Bishanpur village. He saw the boy bathing near a hand-pump and suggested that he accompany him to a nearby river. The man then sexually assaulted him and when victim raised the voice, accused choked him to death and dumped his body along the banks."

According to SHO, victim's father approached the police in the evening and filed a missing person report. Next morning, the police found his body near the river. The postmortem report confirmed sexual assault. The boy's cousin had been seen with the accused. He informed the police, who then arrested Jagdish. Jagdish has confessed to assaulting and killing the boy. A case under Section 377 and 302 of IPC has been registered against accused. The police said that accused is a habitual offender. Earlier, he had committed similar crime but not murder. This time, he killed the victim.

# Back to the wall BJP seeks aid from across the border

**Constituency chock-a-block with who is who of state politics**

• OUR STAFF REPORTER BHOHAL

The assembly bye-election in Chitrakoot constituency in Satna district, necessitated by death of Congress MLA Preet Singh, has become a fiercely contested battle for the BJP and the Congress. Both are trying their level best to emerge win the seat. The BJP, apprehending defeat, has sought help from party leaders and workers from Uttar Pradesh across the border. On Monday UP deputy chief minister Keshav Prasad Maurya addressed public meetings in the area. Besides Maurya, the state BJP has also requisitioned

party workers from that part of Chitrakoot, which falls in Uttar Pradesh.

The chief minister Shivraj Singh Chouhan, a dozen Chitrakoot and an equal number of MLAs are camping in Chitrakoot. All the BJP workers of Satna district have plunged into electioneering. The people of Chitrakoot are awestruck by the presence of all senior politicians in their town.

From the Congress side, the campaign is being led by the veteran Sabha leader of opposition in the Vidhan Sabha Ajay Singh, PCC chief Arun Yadav, MP Kantilal Bhuria and at least a dozen party MLAs are working hard to win the electorate.

Congress had emerged victorious in the constituency in the assembly polls and it does not want to hand it over to the BJP. The prestige of Ajay Singh is also at stake. With the Congress having lost the Malhar bye-election in the Vin-

# Carpet, liquid soap, sanitizer at tribal home hosting CM

The chief minister's decision to stay at the house of tribal Lalman Singh Gond at Chitrakoot on Sunday night has sparked controversy. The administration arranged a string of facilities for the chief minister. The entire house was renovated. A toilet was built overnight. A new bed was arranged and so were mattresses and pillows. The floor was covered with carpets. New chairs, sanitizer, Old Spice shaving cream, liquid hand wash, new towels and buckets were also arranged. Besides administration, the BJP workers too contributed to making the chief minister's stay comfortable.

Ajay Singh has taken strong objection against administration making "divine" arrangements for the chief minister.



He said that even the mud walls of the house were covered with plywood and a new transformer was installed in the village. The roads leading to the village were repaired. Describing this as violation of model code of conduct, Singh urged EC to take cognisance of the issue and take stern action against officials concerned.

Congress has an upper hand in terms of candidate, the BJP enjoys the advantage that comes naturally to the ruling party. Obviously, the contest has become an interesting one and photo-finish, a real possibility.

# Prices of sweets go up in absence of regulatory authority

• SMITHA BHOHAL

People in state capital with a sweet tooth are digging deeper into their pockets because of rampant increase in prices of sweets. This is due to the fact that there is no regulatory authority to keep a check on prices. While sellers blame it on the rise in prices of milk, sugar, demeritisation and GST, the hapless buyers are paying through the nose. The main cause of the price rises, disclosed by the traders, has been the rise in price of raw ingredients like sugar, milk and dry fruits. They also said the prices of sweets depend on the quality accommodation and loca-

tion of the sweet shops. The sweets are being sold at different rates in different localities in the city. The price of sweets including Bedam Pista Laddu, Besam Kadi, Kaju Dry Fruit Barfi is Rs 1200 per kg in Manohar Dairy & Restaurant, Hamidia Road. At the same shop, the price of Anjeer Badam Chikki is Rs 1100 per kg while the price of Anjeer Katali, Kaju Kesar Katali, Kaju Roll, Kaju Gup-Chup is Rs 1020 per kg. In Gagar Sweets Shop, New Market, the rate of Anjeer Pista and Natural Badam is Rs 1200 and 1100 per kg respectively. The price of Anjeer Sugar is Rs 1200 in Chihapani Bhog, New Market, while the

price of Anjeer Barfi is Rs 1000 in Ahuja Sweets Shop, New Market. The price of Boondi Laddu and Besam Laddu in Barfi House, Hamidia Road is Rs 940 and Rs 200 per kg respectively while the price of the same sweets is Rs 400 in Brajwasi and Ahuja Sweets Shop, New Market. The price of Aata Laddu is Rs 400 per kg. Pankaj, owner of Gagar Sweets Shop, New Market, told Free Press, "Every sweets shop has its own formula and they fix the rate of the sweets as per the formula. The price of sweets is also based on ingredients like sugar, milk and dry fruits." We hike the price of sweets when the adminis-

tration increases the rate of milk. We have Sweets Association but no regulatory authority to control the rate of sweets. Yes, it is true that there are different prices of the same sweets in different shops in the city. Collector has power to check the price of sweets," said Raju Bhai, owner of Annapurna Sweets Shop, New Market. Ankit Soni, owner of Milan Sweets and Namkeen Shop, MP Nagar Zone 1, said, "The prices of sweets depend on raw materials. We hike the price when the rate of ingredients increases. There is marginal difference in rate of sweets from one shop to another. GST and demeritisation are also reason

of rise in prices." "The prices of sweets depend on the quality accommodation and location of the sweet shops," said Raj Singh, a staff member of Barfi House, Hamidia Road. Nitin Ahuja, owner of Ahuja Sweets, New Market, said, "The prices of sweets depend on the milk products. We hike its price when the price of milk increases. It also depends on brand."

Yes, there should be a regulatory authority to control the price of sweets. There is no monitoring system for this. - RAMESH SHARMA, President of Sweets Association, Bhopal

**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank** Circle Office, Bhopal

**E-AUCTION SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT**

WHEREAS the Auctioneer of Punjab National Bank, under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred, under section 13(2) read with rule 82(1) of the security interest (enforcement) rule 2002 issued under said Act for the following properties by Public Auction Sale on 27.11.2017.

**LAST DATE OF SUBMISSION OF ENO AND BID DOCUMENTS: 22.11.2017**

| Name of Borrower/Mortgagee   | Description of Secured Assets  | Area (sq. ft.) | EM (₹)     | DA of Auction   | Time of Auction   | Enquiry No.                            |
|--|--|----------------|------------|---|---|--|
| M/s Ghanshyam Food Pvt. Ltd. & Ghanshyam Dal Mill  | 1. Residential House No. (G-1) situated at KIL No. 1033, P422, Bhandari, Distt- Hoshangabad, Measuring 21300 Sqft. Owner: Mr. Ghanshyam Das (Symbolic Possession)  | 192.00         | 16.25      | 27.11.2017  | Between 10.00 am to 11.30 am (With Extension of 5 min. before after 11.30 am if required) | 05-01-2017<br>01-04-2017<br>8370832.01 |
| 2. Factory Land & Building situated at KH. No. 83 (After Ch. Rd. No. 83/2) P. 25, Hoshangabad Measuring 28017 sq. ft. Owner: M/s Ghanshyam Dal Mill (Symbolic Possession)  | 280.00   | 29.00          | 27.11.2017 | Between 10.00 am to 11.30 am (With Extension of 5 min. before after 11.30 am if required) | 05-01-2017<br>01-04-2017<br>8370832.01  |  |
| 3. Factory Land & Building situated at KH. No. 83 P4 25, Bhandari, Distt- Hoshangabad Measuring 21317 sqft. Owner: M/s Ghanshyam Dal Mill, Mahatwari (Symbolic Possession) | 192.00   | 16.25          | 27.11.2017 | Between 10.00 am to 11.30 am (With Extension of 5 min. before after 11.30 am if required) | 05-01-2017<br>01-04-2017<br>8370832.01  |  |
| 4. Factory Land & Building situated at KH. No. 80C, Bhandari, Distt- Hoshangabad Measuring 15243 sqft. Owner: M/s Ghanshyam Dal Mill (Symbolic Possession)                 | 112.50   | 11.26          | 27.11.2017 | Between 10.00 am to 11.30 am (With Extension of 5 min. before after 11.30 am if required) | 05-01-2017<br>01-04-2017<br>8370832.01  |  |
| Smt. Seema Wiley   | G-1 Building, Gf shops & Rooms, FF-RCC frame under construction, part at Plot No. 1371, P. No. 20, Hoshangabad, Harid NH 09 Road, Village Poshwadi Hoshangabad (GPs), are measuring 1575 sq ft. 6F-1575 sq ft. 6F-1575 sq ft. 111 owner Shri. Shri Singh, Mianwali, Bhandari, East-Cant, West-Hoshangabad Harid Road, North-Shri Miala, South-Seller's Part (M/s Restaurant) (Symbolic Possession) | 4.50           | 84.50      | 27.11.2017  | Between 10.00 am to 11.30 am (With Extension of 5 min. before after 11.30 am if required) | 05-01-2016<br>05-12-2016<br>1865724.00 |

**TERMS & CONDITIONS:** (1) The auction sale will be "without reserve" (2) The secured asset will be sold as per the schedule price. (3) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (4) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (5) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (6) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (7) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (8) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (9) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (10) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (11) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (12) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (13) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (14) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (15) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (16) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (17) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (18) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (19) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (20) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (21) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (22) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (23) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (24) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (25) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (26) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (27) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (28) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (29) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (30) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (31) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (32) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (33) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (34) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (35) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (36) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (37) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (38) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (39) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (40) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (41) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (42) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (43) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (44) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (45) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (46) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (47) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (48) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (49) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (50) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (51) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (52) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (53) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (54) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (55) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (56) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (57) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (58) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (59) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (60) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (61) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (62) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (63) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (64) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (65) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (66) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (67) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (68) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (69) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (70) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (71) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (72) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (73) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (74) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (75) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (76) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (77) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (78) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (79) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (80) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (81) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (82) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (83) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (84) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (85) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (86) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (87) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (88) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (89) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (90) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (91) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (92) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (93) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (94) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (95) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (96) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (97) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (98) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (99) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (100) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (101) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (102) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (103) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (104) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (105) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (106) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (107) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (108) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (109) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (110) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (111) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (112) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (113) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (114) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (115) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (116) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (117) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (118) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (119) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (120) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (121) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (122) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (123) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (124) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (125) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (126) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (127) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (128) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (129) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (130) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (131) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (132) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (133) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (134) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (135) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (136) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (137) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (138) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (139) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (140) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (141) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (142) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (143) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (144) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (145) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (146) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (147) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (148) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (149) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (150) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (151) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (152) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (153) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (154) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (155) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (156) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (157) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (158) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (159) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (160) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (161) The bidder who is required to register himself with the bank and submit the bid and the proceeds of the sale will be used to pay the dues of the borrower. (162) The bidder who is required to



 **HIND SYNTEX LIMITED**

REGISTERED OFFICE: Plot No. 2, 3, 4 & 5,  
Sector-A, Industrial Growth Centre,  
Pillukhedi-465667 (M.P.), Phone: 93015-  
28698, E-Mail: pillukhedi@wearitgroup.com  
Website: [www.hindsyntexltd.com](http://www.hindsyntexltd.com),  
CIN: L17118MP1980PLC001697

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, **NOTICE** is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 11<sup>th</sup> November, 2017, at 11.30 A.M., at its Corporate Office at Crescent Tower, 5<sup>th</sup> Floor, 229 A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the 2<sup>nd</sup> Quarter and six months ended on 30<sup>th</sup> September, 2017.

This information is also available on Company's website at <http://www.hindsyntexltd.com> and may also be accessed on Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>

For Hind Syntex Limited  
sd/-  
**Nidhi Rathi**  
Company Secretary

Place: Pillukhedi  
Date: 4<sup>th</sup> November, 2017

## प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाई

औद्योगिक नगर मंडीरीप में सिद्ध धर्म के प्रथम गुरु नानक देव को जयंती को नगर के सिंधी समाज के बंधुओं ने प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास से मनाई इस अवसर पर पटल वनार से जुतुर निकला।



# भोजपाल

स्वदेश भोजपाल, 5 नवंबर 2017 . 5

## मजदूरों ने की शोषण शिकायत

औद्योगिक क्षेत्र स्थित मास्टर इंजीनियरिंग वर्कस नामक कम्पनी के कुछ मजदूरों ने कम्पनी प्रबंधन पर मजदूरों के साथ अशुद्ध व्यवहार मरपीट करने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन पत्र लेकर श्रम कार्यालय गए।

### हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 2,3,4 एवं 5, सेक्टर -ए औद्योगिक क्षेत्र, पीलूखेड़ी-465667 ( म.प्र. )

फोन नं. 93015-28698 ई-मेल pillukhedi@wearit group.com

सीआईएन: L 17118MP 1980 Fic 001697

### सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 11 नवंबर, 2017 को 11.30 बजे, द्वितीय तिमाही एवं छह माही के अन आडिटेड वित्तीय परिणाम पर अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जावेगी।

इस सूचना का विवरण कंपनी की वेबसाइट (http://www.hindsyntexltd.com) एवं स्टाक एक्सचेंज की वेबसाइट (http://www.bseindia.com)

कृते  
स्थापन: पीलूखेड़ी हिन्द सिन्टेक्स लिमिटेड  
दिनांक : 4 नवंबर 2017 हस्ता/-  
निधि राठी  
कंपनी सचिव